



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1755]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2008/अग्रहायण 25, 1930

No. 1755]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2008/AGRAHAYANA 25, 1930

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2008

**का.आ. 2905(अ).—**भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1099 तारीख 16 मई, 2008 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, की आन्ध्र प्रदेश में संरचनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिये मैसर्स रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को तारीख 30-7-2008 को अथवा उससे पूर्व उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पाइपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन का विनिश्चय किया है;

अतः, अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची				
गांव का नाम	सर्वे नंबर और सर्वडिविजन नंबर	आर ओ यू अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	सि-एयर
1	2	3	4	5
मंडल : जिन्नारम	जिला : मेदक	राज्य : आन्ध्र प्रदेश		
1. गाडिपोतारम	7	0	00	45
	10	0	19	00
	11	0	13	95
2. किप्टायपल्लि	166	0	11	40
3. कोरलाकुन्टा	34	0	02	95
	37	0	02	70
	43	0	05	00
4. नल्लुटु	217	0	08	75
	231/2	0	24	20
5. कोडकची	46	0	02	15
	237	0	00	95
	264	0	00	25
6. माधवरमु	25	0	06	75
	26	0	02	95
	27	0	06	00
	38	0	13	70
	704	0	05	90
	705	0	06	15
मंडल : पठानचेरुवु	जिला : मेदक	राज्य : आन्ध्र प्रदेश		
1. पेन्द्रकजली	120 (जि एल)	0	00	15
2. ऐनोल	34	0	62	10
	37	0	00	65
	108	0	00	15
	277	0	31	10
3. चितुकुला	89	0	03	20
4. लकडारम	615	0	37	70
	616	0	03	90
	618	0	04	10
	631	0	00	10
	651	0	07	10
	656	0	00	25
5. रुद्रवरम	61	0	01	40
	762	0	22	55

1	2	3	4	5
मंडल : संगारेड्डी	जिला : मेदक		राज्य : आन्ध्र प्रदेश	
1. चैयाल	721	0	02	45
	725	0	05	55
	732	0	09	90
	739	0	06	00
2. कोतलापूर	83	0	00	35
3. पोतिरेड्डीपाल्ली	186	0	02	80
मंडल : कोण्डापूर	जिला : मेदक		राज्य : आन्ध्र प्रदेश	
1. मल्कापूर	148	0	06	70
	189	0	00	50
	537	0	02	15
	539	0	00	45
	608	0	07	00
	690	0	05	45
	691	0	04	70
	693	0	15	10
2. तोगरपल्ली	56	0	00	50
	61	0	00	40
	65	0	01	30
	68	0	00	95
	69	0	00	55
	9	0	12	50
	66 और 67 के बीच में (जि एल)	0	09	65
3. गिर्मापूर	149	0	06	30
4. गारकुर्ति	62	0	14	90
मंडल : सदाशिवपेट	जिला : मेदक		राज्य : आन्ध्र प्रदेश	
1. पेन्नापूर	507	0	05	95
	556	0	00	60
	578	0	04	00
	585	0	25	05
2. सिद्धापूर	68	0	15	95
	172	0	01	00
	183	0	01	75
	260	0	23	50
	269	0	10	70
3. सदाशिवपेट	459	0	03	60
	473	0	00	10
	474	0	00	15
4. मद्धिकुन्टा	171	0	08	80
	444	0	07	80

1	2	3	4	5
5. तंगडपल्ली	30	0	16	40
मंडल : मुनिपल्लि	जिला : मेदक		राज्य : आन्ध्र प्रदेश	
1. इब्रहीमपूर	11	0	02	10
	59	0	00	25
	60	0	01	95
	65	0	13	15
	66	0	01	50
मंडल : कोहीर	जिला : मेदक		राज्य : आन्ध्र प्रदेश	
1. वेंकाटापूर	60	0	22	15
	64/1	0	28	90
2. कावेली	93	0	00	35
	168	0	05	45
	248	0	03	60
	292	0	01	85
3. गुरुजवाडा	16	0	18	00
4. माद्री	50	0	06	75
	59	0	00	45
	92	0	15	75
	95	0	23	15
	104	0	12	40
	105	0	45	25
	106	0	53	30
	117	0	01	10
मंडल : जहीराबाद	जिला : मेदक		राज्य : आन्ध्र प्रदेश	
1. हुगेल्ल	127	0	00	20
	136	0	06	95
	151	0	33	40
2. रन्जोल	140	0	07	00
3. होथी (बुजुग)	52	0	32	20
	56	0	06	20
	63	0	00	35
	64	0	03	00
	75/1	0	05	85
	75/22	0	12	80
	75/35	0	03	50
	75/48	0	00	10
	75/50	0	00	60
4. कासीमपूर	90	0	00	25
	98	0	00	10
	180	0	04	10

1	2	3	4	5
5. सत्वार	222	0	00	50
	226	0	01	45
	228	0	06	80
	264	0	00	95
	267	0	00	65
	296	0	10	10
	382	0	09	75
	424	0	03	80

[फा. सं. एल-14014/48/2006-जी.पी.]

के. के. शर्मा, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2008

**S.O. 2905(E).**—Whereas, by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 1099 dated the 16th May, 2008, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of Users in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas from the structures in Andhra Pradesh of M/s Reliance Industries Limited by M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited to the consumers in various parts of the country;

And, whereas, the copies of the said Gazette Notification were made available to the public on or before 30-7-2008;

And, whereas, no objections were received from the public to the laying of the pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And, whereas, Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of Users therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of Users in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of Users in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest on this date of publication of the declaration, in M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited, free from all encumbrances.

4909 4/10/08-2

Schedule					
Mandal : Jinnaram		District : Medak		State : Andhra Pradesh	
Village	Survey No. / Sub-Division No.	Area to be acquired for R&U			
		Hectare	Are	C-Are	
1	2	3	4	5	
1. Gadipotharam	7	0	00	45	
	10	0	19	00	
	11	0	13	95	
2. Kistaipalli	166	0	11	40	
3. Korlakunta	34	0	02	95	
	37	0	02	70	
	43	0	05	00	
4. Nalloor	217	0	08	75	
	231/2	0	24	20	
5. Kodakanchi	46	0	02	15	
	237	0	00	95	
	264	0	00	25	
6. Madhavaram	25	0	06	75	
	26	0	02	95	
	27	0	06	00	
	38	0	13	70	
	704	0	05	90	
	705	0	06	15	
Mandal : Patancheruvu		District : Medak		State : Andhra Pradesh	
1. Peddakanjarla	120	GL	0	00	15
2. Inole	34		0	62	10
	37		0	00	65
	108		0	00	15
	277		0	31	10
3. Chitkula	89		0	03	20
4. Lakdaram	615		0	37	70
	616		0	03	90
	618		0	04	10
	631		0	00	10
	651		0	07	10
	656		0	00	25
5. Rudravaram	61		0	01	40
	762		0	22	55

1	2	3	4	5
<b>Mandal : Sangareddy</b>	<b>District : Medak</b>	<b>State : Andhra Pradesh</b>		
1. Cherial	721	0	02	45
	725	0	05	55
	732	0	09	90
	739	0	06	00
2. Kothlapur	83	0	00	35
3. Pothireddypalli	186	0	02	80
<b>Mandal : Kondapur</b>	<b>District : Medak</b>	<b>State : Andhra Pradesh</b>		
1. Malkapur	148	0	06	70
	189	0	00	50
	537	0	02	15
	539	0	00	45
	608	0	07	00
	690	0	05	45
	691	0	04	70
	693	0	15	10
2. Thogarpalli	56	0	00	50
	61	0	00	40
	65	0	01	30
	68	0	00	95
	69	0	00	55
	9	0	12	50
	Bet 66 & 67	GL	0	09
				65
3. Girmapur	149	0	06	30
4. Garakurthi	62	0	14	90
<b>Mandal : Sadashivpet</b>	<b>District : Medak</b>	<b>State : Andhra Pradesh</b>		
1. Peddapur	507	0	05	95
	556	0	00	60
	578	0	04	00
	585	0	25	05
2. Siddapur	68	0	15	95
	172	0	01	00
	183	0	01	75
	260	0	23	50
	269	0	10	70
3. Sadashivpet	459	0	03	60
	473	0	00	10
	474	0	00	15
4. Maddikunta	171	0	08	80
	444	0	07	80

- 1	- 2	3	4	5
5. Tangedpalli	30	0	16	40
<b>Mandal : Munipalli</b>	<b>District : Medak</b>	<b>State : Andhra Pradesh</b>		
1. Ibrahimpur	11	0	02	10
	59	0	00	25
	60	0	01	95
	65	0	13	15
	66	0	01	50
<b>Mandal : Koheer</b>	<b>District : Medak</b>	<b>State : Andhra Pradesh</b>		
1. Venkatapur	60	0	22	15
	64/1	0	28	90
2. Kaveli	93	0	00	35
	168	0	05	45
	248	0	03	60
	292	0	01	85
3. Gurujwada	16	0	18	00
4. Madri	50	0	06	75
	59	0	00	45
	92	0	15	75
	95	0	23	15
	104	0	12	40
	105	0	45	25
	106	0	53	30
	117	0	01	10
<b>Mandal : Zaheerabad</b>	<b>District : Medak</b>	<b>State : Andhra Pradesh</b>		
1. Huggelli	127	0	00	20
	136	0	06	95
	151	0	33	40
2. Ranjol	140	0	07	00
3. Hothi(Bujrug)	52	0	32	20
	56	0	06	20
	63	0	00	35
	64	0	03	00
	75/1	0	05	85
	75/22	0	12	80
	75/35	0	03	50
	75/48	0	00	10
	75/50	0	00	60
4. Khasimpur	90	0	00	25
	98	0	00	10
	180	0	04	10

1	2	3	4	5
5. Satwar	222	0	00	50
	226	0	01	45
	228	0	06	80
	264	0	00	95
	267	0	00	65
	296	0	10	10
	382	0	09	75
	424	0	03	80

[F. No. L- 14014/48/2006-G.P.]

K. K. SHARMA, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2906(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आन्ध्रप्रदेश में संरचनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और, भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के संबंध में श्री एम. ए. गम्फारसक्षम प्राधिकारी, रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, प्लॉट नं 202, डोर नं 6-3-1238/202, 2 फ्लोर, एलिगेंट अपार्टमेंट्स, राजभवन रोड, सोमाजीगूडा - 500082, हैदराबाद, आन्ध्रप्रदेश राज्य को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची					
गांव का नाम	सर्वे नंबर	सब-डिविजन नंबर	आर ओ यू अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एकर	सि एकर
1	2	3	4	5	6
मंडल : जहीरावाद			जिला : मेदक		
			राज्य : आन्ध्र प्रदेश		
1. होथी (खुर्द)	12	-	0	46	00
	80	-	2	35	00
2. रन्जोल	138	-	0	74	00
मंडल : कोहीर			जिला : मेदक		
			राज्य : आन्ध्र प्रदेश		
1. माट्रा	112	-	1	64	15
	105	-	0	15	80
2. कवेलि	93	-	0	19	15
	100	-	0	61	10

4909 G.M.-3

1	2	3	4	5	6
मंडल : मुनिपल्लि	जिला : मेदक			राज्य : आन्ध्र प्रदेश	
1. इब्रहीमपुर	57	-	0	63	00
	59	-	0	24	00
	60	-	0	39	00
	61	-	0	36	65
	62	-	0	14	05
	63	-	0	01	20
	66	-	0	00	65
	67	-	0	00	20
	68	-	0	20	00
	87	-	0	14	90
	88	-	0	81	50
	90	-	0	19	00
	91	-	0	78	00
मंडल : सदाशिवपेट	जिला : मेदक			राज्य : आन्ध्र प्रदेश	
1. मिलिगिरिपेट	146	-	1	59	65
2. तंगेडपल्लि	30	-	2	65	55
3. मध्दिकुन्टा	18	-	1	59	15
4. पेध्दापूर	507	-	1	84	60
	591	-	0	12	85
	592	-	0	09	55
	585	-	0	22	10
	598	-	0	06	90

[फा. सं. एल-14014/48/2006-जी.पी.]

के. के. शर्मा, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th December, 2008

**S.O. 2906(E).**—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas from structures in Andhra Pradesh of M/s Reliance Industries Limited, to various consumers in the country, a pipeline should be laid by M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited;

And, whereas, it appears to Government of India that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire Right of Users in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962(50 of 1962), ~~Government of India~~, hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of the notification as published in the Gazette of India under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of Right of the User therein for laying the pipeline under the land to Shri M.A. Gaffar, Competent Authority, Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited, Flat No 202, Door No. 6-3-1238/202, 2<sup>nd</sup> Floor, Elegant Apartments, Raj Bhavan Road, Somajiguda- 500 082, Hyderabad, Andhra Pradesh State.

## Schedule

Village	Survey No.	Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU		
			Hectare	Are	C-Are
1	2	3	4	5	6
<b>Mandal : Zaheerabad</b>	<b>District : Medak</b>		<b>State : Andhra Pradesh</b>		
1. Hothi(Khurd)	12	-	0	46	00
	80	-	2	35	00
2. Ranjol	138	-	0	74	00
<b>Mandal : Koheer</b>	<b>District : Medak</b>		<b>State : Andhra Pradesh</b>		
1. Madri	112	-	1	64	15
	105	-	0	15	80
2. Kavali	93	-	0	19	15
	100	-	0	61	10
<b>Mandal : Munipalli</b>	<b>District : Medak</b>		<b>State : Andhra Pradesh</b>		
1. Ibrahimpur	57	-	0	63	00
	59	-	0	24	00
	60	-	0	39	00
	61	-	0	36	65
	62	-	0	14	05
	63	-	0	01	20
	66	-	0	00	65
	67	-	0	00	20
	68	-	0	20	00
	87	-	0	14	90
	88	-	0	81	50
	90	-	0	19	00
	91	-	0	78	00
<b>Mandal : Sadashivpet</b>	<b>District : Medak</b>		<b>State : Andhra Pradesh</b>		
1. Miligiripet	146	-	1	59	65
2. Tangedpalli	30	-	2	65	55
3. Maddikunta	18	-	1	59	15
4. Peddapur	507	-	1	84	60
	591	-	0	12	85
	592	-	0	09	55
	585	-	0	22	10
	598	-	0	06	90

[F. No. L- 14014/48/2006-G.P.]

K. K. SHARMA, Under Secy.